


प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पु-
मे मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक रः.
पन्ने है यह मापी पुस्त थी.....
सहायक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल.....को निर्गत
किया जाता है।


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, मधुवनी
04/18/06/21

Sch. XLV—Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2597

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name to work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.

1

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>C.H.H. - F.D.R.</u>					
<u>Now work: - Motorable road from</u>					
<u>Bardhaman to Malakhat west</u>					
<u>Station - M/R-2054</u>					
<u>Agency - Departmental</u>					
<u>Authority: - E.E. Road, Malakhat</u>					

Date of survey: -

Work done

1) Do. Bricks in ditto -

$1 \times 3.75 \times \frac{1.00 + 5.90}{2} \times \frac{0.15 + 0.45}{2} = 14.85 \text{ m}^3$	
$1 \times 5.00 \times \frac{4.25 + 5.75}{2} \times \frac{0.90 + 0.45}{2} = 16.88 \text{ m}^3$	
$1 \times 6.00 \times \frac{3.75 + 2.50}{2} \times \frac{0.60 + 0.80}{2} = 8.44 \text{ m}^3$	
$1 \times 8.10 \times \frac{4.00 + 3.75}{2} \times \frac{0.20 + 0.30}{2} = 7.85 \text{ m}^3$	
$1 \times 5.00 \times \frac{1.50 + 1.15}{2} \times \frac{0.25 + 0.40}{2} = 1.88 \text{ m}^3$	
$1 \times 17.00 \times \frac{2.75 + 3.75}{2} \times \frac{0.125}{2} = 15.94 \text{ m}^3$	
$1 \times 3.40 \times 3.75 \times 0.20 = 7.05 \text{ m}^3$	

72.89 m³

30/10/11
AE

31/10/11
AE

Continuation

[illegible]

Continuation